

प्रेस नोट थाना खोराबार दिनांक 26-07-2021

पुलिस मुठभेड़ मे हत्या मे वांछित 01 नफर वांछित अभि0 घायल/गिरफ्तार व कब्जे से 01 अदद लाईसेन्सी डीबीबीएल गन 12 बोर(चोरी की) मय 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, तथा 01 पल्सर मोटरसायकिल(चोरी की) बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में घटित लूट, चोरी व इनामियाँ अपराधी की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक अपराध के मार्ग दर्शन में खोराबार पुलिस टीम को लगाया गया था। आज दिनांक 26.07.2021 को प्र0नि0 राहुल कुमार सिंह मय हमराहीयान के थाना क्षेत्र में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन मे मामूर था कि क्राइम ब्रांच टीम प्रभारी सुनील कुमार शुक्ला मय हमराहीयान के हमसभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि मुखबीर खास ने आकर बताया कि एक पल्सर मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्ति बाघागाडा के तरफ से कुशीनगर की तरफ आने वाले है जिसमे पीछे बैठा व्यक्ति चोरी की डीबीबीएल गन लिये हुये है यदि जल्दी किया जाये तो पकडा जा सकता है मुखबीर खास की बात पर विश्वास कर हमसभी लोग मोटर साइकिल दो ब्यक्ति के आने का इन्तजार करने लगे कुछ समय बाद एक मोटर साइकिल पर दो ब्यक्ति आते दिखाई दिये जिन्हे टार्च जलाकर रोकने का संकेत किया गया कि अचानक हम पुलिस वालो को देखकर कुशीनगर के तरफ तीब्र गति से भागने लगे पीछा करने पर श्रीराम ढाबा के आगे जंगल चवरी (तार भितर) के तरफ जाने वाले रोड पर बाये तरफ अचानक मुडकर कच्चे रास्ते पर हम पुलिसवालो की गाडी नजदीक देखकर दोनो एक स्वर में चिल्लाये कि मारो साले पुलिसवाले है बचने न पाये यह कहते हुये जान से मारने डालने की नियत से फायर किये गाडी को तेजी से मुडाने में फिसल कर गिर गये कि हम पुलिस वालो के द्वारा आत्मरक्षार्थ हिकमत अमली से अपने को बचाते हुये जवाबी कार्यवाही करते हुये फायर किये गये कि थोडी देर बाद उधर से फायरिंग बन्द हो गयी हम पुलिसवाले टेक्टिकल हरकत करते हुये एक बदमाश के पास पहुचे तो देखे कि बाये जांघ पर गोली लगी है। नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम धर्मदेव यादव पुत्र मेवालाल यादव निवासी गौरी बुजुर्ग थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया बताया तथा दूसरा ब्यक्ति मौके से भागने सफल हो गया पूछने पर भागे हुए ब्यक्ति का नाम संजय निषाद पुत्र बंशी निषाद ग्राम चनगाही थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर बताया अभियुक्त धर्मदेव यादव के कब्जे से एक अदद चोरी की डीबीबीएल गन, 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अदद पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध मे बता रहा कि इस बन्दूक को मैं तथा मिथुन मिलकर थाना क्षेत्र कैंन्ट से चुराए थे। गिरफ्तार घायल अभि0 धर्मदेव को पुलिस हिरासत मे लेकर तत्काल मौके से उपचार हेतु मेडिकल कालेज गोरखपुर भेजवाया गया।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त नाम पता

धर्मदेव यादव पुत्र मेवालाल यादव निवासी गौरी बुजुर्ग थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान –

25.07.2021 समय 23.00, जंगल चवरी श्रीराम ढाबातारभीतर 5 कि0मी पूर्वोतर बहद थाना क्षेत्र खोराबार

बरामदगी

1. एक अदद चोरी की लाईसेन्सी डीबीबीएल गन 12 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
2. एक अदद चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल विना नम्बर के।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- 1- मु0अ0सं0 361/21 धारा 307/41/411/413 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर ।
- 2- मु0अ0सं0 362/21 धारा 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर ।

अपराधिक इतिहास:-

धर्मदेव यादव पुत्र मेवालाल यादव निवासी गौरी बुजुर्ग थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया

1. मु0अ0सं0 304/2021 धारा 302,34,120 बी भादवि थाना खोराबार
2. मु0अ0सं0 170/2021 धारा 326 ए भादवि थाना खोराबार
3. मु0अ0सं0 361/2021 धारा 307/41/411/413 भादवि थाना खोराबार
4. मु0अ0सं0 362/21 धारा 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार
5. मु0अ0सं0 784/14 धारा 392/411 भादवि थाना गौरीबाजार देवरिया
6. मु0अ0सं0 873/2014 धारा 3(1) यूपी गैंगे0एक्ट भादवि थाना गौरीबाजार देवरिया
7. मु0अ0सं0 246/2014 धारा 392/411 भादवि थाना चौरी चौरा गोरखपुर
8. मु0अ0सं0 249/2015 धारा 392 भादवि थाना चौरी चौरा गोरखपुर
9. मु0अ0सं0 254/2014 धारा 392 भादवि थाना चौरी चौरा गोरखपुर

10. HS NO-231A/2017 थाना गौरी बाजार देवरिया

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम व नियुक्ती स्थान

- 1- श्री राहुल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक खोराबार गोरखपुर ।
- 2- निरीक्षक श्री उ0नि0 सुनिल कुमार शुक्ला (प्रभारी क्राइम ब्रान्च गोरखपुर)
- 3- उ0नि0 श्री चन्द्रभान सिंह क्राइम ब्रान्च गोरखपुर
- 4- उ0नि0 श्री रामदयाल सिंह थाना खोराबार गोरखपुर ।
- 5- उ0नि0 श्री पंकज कुमार सिंह थाना खोराबार गोरखपुर।
- 6- उ0नि0 चन्दन कुमार सिंह थाना खोराबार गोरखपुर।
- 7- हे0का0 शशिकानत राय क्राइम ब्रान्च गोरखपुर
- 8- हे0का0 तेज सिंह क्राइम ब्रान्च गोरखपुर
- 9- हे0का0 संजय कुमार सिंह थाना खोराबार गोरखपुर ।